

21वीं सदी के तीसरे दशक का गुरु भारत

नववर्ष विशेषांक

वर्ष : 3, अंक : 26 | 01 जनवरी, 2021

परफॉर्म इंडिया





वर्ष 2020 अपने आप में कई खट्टी-मीठी यादें समेटे बीत गया। इस साल का गुजरना भी हमारे मन में एक उम्मीद की किरण की तरह है, क्योंकि पूरा साल कोरोना महामारी के साए में ही बीता। इस दौरान चुनौतियां खूब आईं, अनेक बाधाएं भी आईं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी छवि के अनुरूप विपरीत परिस्थितियों में भी चट्टान की तरह मजबूती के साथ डटे रहे। उन्होंने लॉकडाउन जैसे साहसिक और निर्णायक फैसले लेकर अद्भुत नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई।

वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ पांच मोर्चों को संभालकर साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती उन्हें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती। चाहे कोरोना संकट से निपटना हो या पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर टकराव, या फिर नेपाल के साथ नक्शा विवाद और आर्थिक मामले हों, सभी मोर्चों पर प्रधानमंत्री मोदी ने धैर्य के साथ काम लिया और सफलता पाई। लद्दाख में जमीन हथियाने की चीनी मंशा को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कड़ी चुनौती मिली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पराक्रम को चीन के साथ पूरी दुनिया ने देखा।

प्रधानमंत्री मोदी ने जता दिया कि राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दशा-दिशा बदल सकती है। चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में भारत का सम्मान बढ़ा। चाहे विधानसभा चुनाव हो, या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव, देश में मोदी लहर देखने को मिली। बीजेपी की राजनीतिक सफलता का सिलसिला वर्ष 2020 में भी जारी रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत इसका स्पष्ट प्रमाण है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की वजह से देश को नई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। हालांकि, इसने एक मजबूत संदेश के साथ एक बहुत अच्छा सबक भी सिखाया। इसने हमें सिखाया कि हमें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना होगा। इसने हमें सिखाया है कि हमें समस्याओं का समाधान देश के बाहर नहीं तलाशना चाहिए, बल्कि 2021 में 'वोकल फॉर लोकल' को अपना मंत्र बनाना होगा।

वर्ष 2020 में सीखे गए नए सबक की पूंजी लेकर भारत ने 2021 के इस नए साल में प्रवेश किया है। इस वर्ष बीते हुए साल की चुनौतियों से मिले सबक और सफलताओं से मिले हौसले के साथ आगे बढ़ना है। हर नए साल के अवसर पर सभी की उम्मीदें होती हैं कि यह वर्ष हमारे लिए काफी अच्छा साबित होगा। सरकार के साथ ही सभी देशवासी भी इसे उम्मीदों के साल के तौर पर देख रहे हैं। लोगों को भरोसा है कि कोरोना वैक्सीन के बाद शायद दुनिया फिर से पहले की तरह आजाद हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत 2021 में सफलताओं के नए शिखर पर पहुंचे, दुनिया में भारत का कद बढ़े, इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है।



वर्ष 2020 में पहली बार



परफॉर्म इंडिया

- प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त, 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया।
- पीएम मोदी 14 अगस्त, 2020 को देश के सबसे ज्यादा दिन तक सेवारत गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।
- पीएम मोदी 15 अगस्त, 2020 को 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।
- पीएम मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को हर भारतीय को हेल्थ कार्ड देने वाली 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान' की घोषणा की।
- पिछले 70 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 40 दिन में मुख्यमंत्रियों से 4 बार बात की।
- 12 मई, 2020 को पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के साथ 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की।
- पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल फॉर ग्लोबल' का मंत्र दिया।
- राज्यसभा के इतिहास में पहली बार एनडीए का आंकड़ा न सिर्फ सौ के पार हुआ, बल्कि बहुमत के करीब पहुंच गया।
- 10 दिसंबर, 2020 को भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक पहल था, जब पीएम मोदी ने देश के नए संसद भवन का शिलान्यास किया।
- 29 जुलाई, 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली, जिसमें बड़ा बदलाव कर स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 का रूप दिया गया।
- नए कृषि कानून के तहत किसानों को अब कहीं भी अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की आजादी मिली।
- 7 अगस्त, 2020 को देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल की शुरुआत हुई।
- पीएम मोदी ने 28 दिसंबर, 2020 को देश की पहली ड्राइवर-लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की।
- पीएम मोदी ने 18 सितंबर, 2020 को ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को देश को समर्पित किया।

वर्ष 2020 में पहली बार

परफॉर्म इंडिया

- 27 जुलाई, 2020 को फ्रांस से पांच राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे, जिन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया।
- पीएम मोदी ने 2 अप्रैल, 2020 को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए 'आरोग्य सेतु' नाम का मोबाइल एप लॉन्च किया।
- भारत पीपीई किट और एन-95 मास्क के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया।
- निमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए पहली 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन 'निमोसिल' को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने लॉन्च किया।
- फास्ट टैग के माध्यम से देश में टोल संग्रह राशि पहली बार 80 करोड़ रुपये प्रति दिन को पार कर गयी।
- वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया और पहली बार टॉप 50 में शामिल हुआ।
- भारतीय मौसम विभाग ने 5 मई, 2020 को PoK के गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना शुरू किया।
- जनवरी 2020 में पीएम मोदी ने Advanced Technologies के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 5 लैब्स का उद्घाटन किया।
- 24 अप्रैल, 2020 को पीएम मोदी ने ग्राम पंचायतों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया।
- मार्च 2020 में महिला दिवस पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा और महिला सभाओं का आयोजन किया गया।
- विदेशी मुद्रा भंडार ने 5 जून, 2020 को खत्म हुए हफ्ते में पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर को पार किया था।



'वोकल फॉर लोकल' का संकल्प

परफॉर्म इंडिया



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

“हमारा देश 2021 में सफलताओं के नए शिखर छुएं, दुनिया में भारत की पहचान और सशक्त हो, इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है।”

“चुनौतियां खूब आईं। संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में supply chain को लेकर अनेक बाधाएं भी आईं, लेकिन, हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश में नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है, तो इस सामर्थ्य का नाम है 'आत्मनिर्भरता'।”

“भारत में बने विकल्पों का पता करें, और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों की मेहनत से, पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। आप हर साल new year resolutions लेते हैं, इस बार एक resolution अपने देश के लिए भी जरूर लेना है।”

वर्ष 2020 के सबसे बड़े फैसले

परफॉर्म इंडिया



देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा



देश को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला



प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा



कृषि सुधार के लिए तीन नए कृषि कानून



नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा



स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी का फैसला

वर्ष 2020 की सबसे बड़ी उपलब्धियां

परफॉर्म इंडिया

5 अगस्त, 2020 को राममंदिर
का भूमि पूजन

10 दिसंबर, 2020 को नए संसद
भवन का शिलान्यास

80 करोड़ लोगों को नवम्बर
तक मुफ्त राशन

भारत पीपीई किट के निर्माण में
दूसरे स्थान पर पहुंचा

कोरोना वैक्सीनों को समर्पित
रहा वर्ष 2020

कोरोना संकट: आरोग्य सेतु एप
बना महत्वपूर्ण हथियार

क्लासिकल स्वाइन फीवर का
नया टीका विकसित

पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
बना भारत

भारत यूएनएससी में 8वीं बार
अस्थायी सदस्य बना





पीएम मोदी ने बनाया रिकॉर्ड



परफॉर्म इंडिया

- 14 अगस्त, 2020 को पीएम मोदी देश में सबसे लम्बे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए।
- पीएम मोदी ने 18 साल और 306 दिनों के साथ सबसे ज्यादा वक्त तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर रहने का रिकॉर्ड बनाया।
- पीएम मोदी सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले भारत के चौथे प्रधानमंत्री बन गए।
- कोरोना काल में वर्चुअल बैठकों के मामले में पीएम मोदी अव्वल रहे, 17 वर्चुअल सम्मेलन के साथ 90 बार वैश्विक नेताओं से फोन पर बात की।
- नवंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर पर सक्रियता को लेकर पॉलिटिक्स कैटेगरी में पीएम मोदी एक बार फिर टॉप पर रहे।
- 5 अप्रैल, 2020 को पीएम मोदी के ट्वीट ने रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2020 में भारतीय राजनीति में सबसे अधिक रीट्वीट किया गया ट्वीट था।
- एनालिसिस कंपनी चेकब्रांड की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त से अक्टूबर के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक ट्रेंड पीएम मोदी से जुड़े रहे।
- पीएम मोदी 50.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने रहे।
- पीएम मोदी के 15 अगस्त, 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले से भाषण को रिकॉर्ड संख्या में लोगों (13.3 करोड़) ने देखा।
- 15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को रिकॉर्ड संख्या में 152 चैनलों पर लाइव दिखाया गया।
- अगस्त 2020 में जारी MOTN सर्वे के अनुसार, पीएम मोदी को एक बार फिर भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया।
- फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के '50 प्रभावशाली व्यक्ति 2020' के सर्वे में पीएम मोदी भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति बने।
- कोरोना संकट से निपटने में अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच राष्ट्राध्यक्षों की अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी (74 प्रतिशत) अव्वल रहे।

वर्ष 2020 में मिला सम्मान

- पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों में शामिल 'लीजन ऑफ मेरिट' पुरस्कार से सम्मानित किया।





आपदा को अवसर में बदला



परफॉर्म इंडिया

- कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया।
- 17 वर्चुअल सम्मेलनों में हिस्सा लेने के साथ 90 बार वैश्विक नेताओं से फोन पर बात की।
- कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया।
- पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू के बाद देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की।
- कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया।
- कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में घर-घर तालियां और थालियां बर्जी और अस्पतालों पर फूल बरसाये गए। एकजुटता के लिए दीये जलाये गए।

बेहतर स्थिति में भारत

- 29 दिसंबर, 2020 को देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई।
- देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,68,581 हो गई। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.63 प्रतिशत हो गई।
- विश्व में सबसे ज्यादा रिकवरी भारत में हुई है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। रिकवरी रेट बढ़कर 95.92 प्रतिशत हो गई।
- देश में ही 8 वैक्सीन तैयार हो रही है। हैदराबाद के सीरम इंस्टीट्यूट के पास दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार करने की क्षमता है।
- सीएसआईआर-एनएएल ने 35 दिनों के भीतर बाईपैप वेंटिलेटर का विकास किया।
- 30 जनवरी, 2020 को कोरोना वायरस की जांच के लिए 6 लैब्स बनाए गए थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है।
- कोरोना का संकट आया तो एक दिन में सिर्फ 300 टेस्ट हो पाते थे। आज हर दिन 7 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं।
- कोविड अस्पतालों को 50,000 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई।
- कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड बनाया। सरकारी और निजी संस्थाओं से करोड़ों रुपये दान में मिले।



कृषि सुधारों को समर्पित वर्ष 2020



परफॉर्म इंडिया

किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए पहल

संसद ने तीन क्रांतिकारी कृषि कानूनों को पारित किया-

1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020
2. कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020
3. आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020



- 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की सातवीं किस्त जारी
- 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर
- 28 दिसंबर को देश की 100वीं किसान रेल को मिली हरी झंडी
- केंद्रीय बजट 2020-21 में किसान कृषि उड़ान योजना की घोषणा
- कृषि क्षेत्र के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा
- 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी मिली
- 4,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय औषधीय पौध कोष की घोषणा
- डेयरी सेक्टर के लिए विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा
- पीएम मोदी ने ई-गोपाला मोबाइल एप लॉन्च किया
- पशुधन के मुंहपका बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू
- देसी नस्ल के गायों के विकास के लिए मिशन गोकुल शुरू
- मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन
- 20,050 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का शुभारंभ
- एफपीओ को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा
- गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने की मंजूरी।
- 27 दिसंबर तक 457 लाख मीट्रिक टन धान MSP मूल्य पर खरीदा गया
- 57 लाख किसानों को 86,243 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया

आत्मनिर्भर भारत अभियान

परफॉर्म इंडिया

पीएम मोदी ने 12 मई, 2020 को देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत यानि 20 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच स्तंभ

अर्थव्यवस्था
एक ऐसी इकॉनॉमी, जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, बल्कि क्वांटम जंप लाए।

बुनियादी ढांचा
एक ऐसा बुनियादी ढांचा, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सके।

सिस्टम
एक ऐसा सिस्टम, जिसमें आधुनिक तकनीक को अपनाने और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना शामिल है।

डेमोग्राफी
हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है।

मांग
हमारे पास बड़ा घरेलू बाज़ार और डिमांड क्षेत्र है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।

- पीएम मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल फॉर ग्लोबल' का मंत्र दिया।
- पीएम मोदी ने 4 जुलाई, 2020 को एप के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया।
- GeM पर नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उत्पादक देश की जानकारी देना अनिवार्य किया गया।
- घरेलू कंपनियों को अवसर देने के लिए 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर पर रोक लगायी गई।
- सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए 'मेक इन इंडिया' नीति में संशोधन किया गया।
- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दिया जाएगा।



कल्याणकारी योजनाएं



परफॉर्म इंडिया


- कोरोना काल में नवंबर 2020 तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई।
- प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2020 में 116 जिलों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया।
- पीएम मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की।
- रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्व-निधि योजना शुरू की गई।
- 13 अगस्त, 2020 को शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए AMRUT योजना की घोषणा की गई।
- देश के 112 पिछड़े जिलों में पूरे आईटी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम शुरू किया गया।
- अक्टूबर 2020 में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कुम्हारों को 18 हजार विद्युत चालित चाक वितरित किए गए।

लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी

आयुष्मान भारत योजना-1.49 करोड़
पीएम जनधन योजना- 41.49 करोड़
पीएम उज्वला योजना- 8.03 करोड़
पीएम सुरक्षा बीमा योजना- 21.4 करोड़
अटल पेंशन योजना- 2.66 करोड़
मुद्रा लोन की मंजूरी- 27.02 करोड़
मिशन इंद्रधनुष योजना- 3.7 करोड़
जीवन प्रमाण- 4.37 करोड़
पीएम श्रम योगी मान-धन योजना- 44.7 लाख
उजाला योजना- 36.6 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण
पीएम आवास योजना- 1.63 करोड़ घरों का निर्माण
स्वच्छ भारत मिशन- 11.35 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण
सौभाग्य योजना - 2.62 करोड़ घरों में पहुंची बिजली



नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020



परफॉर्म इंडिया

भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2020 को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी।

- स्कूली शिक्षा के मूलभूत ढांचे में एक बड़ा बदलाव कर स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 का रूप दिया गया है।
- शिक्षा का अधिकार जो पहले 6 से 14 साल था, उसका दायरा बढ़कर अब 3 से 18 साल किया गया है।
- प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशन सीखे इसके लिए कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
- पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है।
- नई नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात की गई है। मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है।
- क्रेडिट ट्रांसफर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का प्रावधान किया गया है।
- देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है।
- वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए 'जेन्डर - समावेशी कोष' की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम है।



राजनीतिक सफलता का वर्ष 2020



परफॉर्म इंडिया

कोरोना संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता देश भर में लोगों के सर चढ़कर बोलती रही। चाहे विधानसभा चुनाव या फिर स्थानीय निकाय चुनाव, देश में मोदी लहर कायम रहा। इसलिए बीजेपी की राजनीतिक सफलता का सिलसिला वर्ष 2020 में भी जारी रहा।

- बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में 80 प्रतिशत सीटें जीतकर इतिहास रच दिया।
- बीजेपी ने पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव में 8 में से 6 सीटें जबकि ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में 20 में से 10 सीटें जीतीं।
- जम्मू-कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा 74 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।
- डीडीसी चुनाव में बीजेपी को नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मिलाकर पाए गए वोट से ज्यादा वोट मिले।
- राजस्थान के 21 जिलों के पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए हुए चुनावों में बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिया।
- हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में 2016 में सिर्फ चार सीटें हासिल करने वाली बीजेपी ने इस बार 150 में से 48 सीटों पर अपना परचम लहराया।
- असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) में बीजेपी गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। बीजेपी के सीटों की संख्या एक से बढ़कर 9 तक पहुंची।
- बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी। बीजेपी को 67 प्रतिशत की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 74 सीटों पर सफलता मिली।
- 11 राज्यों के 59 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी ने परचम लहराते हुए 40 सीटों पर जीत हासिल की।
- मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। नवंबर में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटें जीतकर सदन में पूर्ण बहुमत हासिल किया।
- राज्यसभा के इतिहास में पहली बार एनडीए का आंकड़ा न सिर्फ सौ के पार हुआ, बल्कि बहुमत के करीब पहुंच गया।
- राज्यसभा में एनडीए के पास 104 सदस्य हैं। बीजेपी के सबसे ज्यादा 93 सदस्य हैं। राज्यसभा में पहली बार बीजेपी इतनी ताकतवर बनी।

अंतरिक्ष में छलांग



परफॉर्म इंडिया

- कोरोना काल में भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दुनिया में एक बार फिर अपनी तकनीक का लोहा मनवाया।
- इसरो ने 7 नवंबर, 2020 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया।
- मोदी सरकार ने 24 जून, 2020 को नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के गठन का ऐतिहासिक फैसला किया।
- इसके तहत अंतरिक्ष गतिविधियों में भारत के निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी गई।
- 7 जनवरी, 2020 को ISRO के संचार उपग्रह जीसैट-30 को एरियन-5 रॉकेट से फ्रेंच गयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।



देश की सुरक्षा हुई मजबूत

- पूर्व जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनाया गया।
- 8 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया। 29 जुलाई को 5 और 3 नवंबर को 3 विमान फ्रांस से भारत पहुंचे।
- 27 मई, 2020 को भारतीय वायुसेना की नंबर-18 स्क्वाड्रन 'फ्लाइंग बुलेट्स' को पुनः परिचालित किया गया।
- सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नौसैनिक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया।
- देश में तैयार लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल (एटीजीएम) का सफल परीक्षण किया गया।
- भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना के साथ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की राह पर है।
- 2020 में रक्षा तैयारियों के साथ आधुनिक हथियार खरीदे गए और सीमा पर आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया।



पीएम मोदी के सिंहनाद से सहमा चीन



परफॉर्म इंडिया

पीएम मोदी ने लद्दाख का दौरा करके स्पष्ट संदेश दिया कि भारत पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने वाला नहीं है। वह दृढ़ता से हालात से निपटेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जुलाई, 2020 को लद्दाख स्थित निमू में जवानों को संबोधित करते हुए चीन को कड़ा संदेश दिया।

ऊंची चोटी पर भारतीय सैनिकों का कब्जा

- अगस्त 2020 के अंत में इंडियन स्पेशल फोर्स ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में एक ऊंची चोटी पर कब्जा कर चीन को चकित कर दिया।
- गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीन के 45-50 सैनिक मार गिराए। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान भी शहीद हो गए।

चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक

- 29 जून, 2020 को 59 चीनी एप्स बैन को किया गया।
- 28 जुलाई, 2020 को 47 एप्स को बैन किया गया।
- 2 सितंबर, 2020 को 118 एप्स पर प्रतिबंध लगाया गया।
- 24 नवंबर, 2020 को 43 चीनी एप को बैन किया गया।



चीनी कंपनियों पर शिकंजा

- मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए पड़ोसी देशों से आने वाली एफडीआई को सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया।

भारत-चीन सीमा पर सड़कों का जाल

- चीन से टकराव के बीच सीमा सड़क संगठन ने 44 नए पुलों का निर्माण किया, जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने 12 अक्टूबर, 2020 को किया।
- पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर, 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था।
- मोदी सरकार ने पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी सड़क के नवीनीकरण का कार्य कराया। ये सड़क LAC के करीब है।
- 2020 में चीन सीमा से लगी 2323.57 किलोमीटर लंबी 61 रणनीतिक सड़कों की 98 प्रतिशत कनेक्टिविटी पूरी कर ली गई।



भारत का बढ़ा कद

परफॉर्म इंडिया

- कोरोना संकट के दौरान अपने देश को संभालने के साथ दुनिया के देशों की मदद करने पर पीएम मोदी के नेतृत्व का पूरा विश्व कायल हो गया।
- यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों को भी भारत से सीख लेने की बात कही।
- 6 अक्टूबर 2020 को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वैड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में भारत भी शामिल हुआ।
- अमेरिका ने भारत को एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनकर उभरने का स्वागत किया।
- 26-27 अक्टूबर, 2020 को अमेरिका और भारत के बीच 2+2 मंत्रीस्तरीय बैठक हुई।
- भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया।
- 17 जून, 2020 को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया।
- सिडनी स्थित लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में अमेरिका पहले, चीन दूसरे, जापान तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है।
- अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आयोजित 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व के विकास में पीएम मोदी के योगदान की तारीफ की।



मजबूत हुई भारत की साख

परफॉर्म इंडिया

वर्ष 2020 में कोरोना संकट के बावजूद भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा और कई अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार हुआ।

- भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, 2020 में 63वें स्थान पर पहुंचा
- क्लाइमेट चेंज परफारमेंस इंडेक्स, 2021 में भारत दसवें स्थान पर पहुंचा
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2020 में भारत 48वें स्थान पर पहुंचा
- वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, 2020 में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा
- वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, 2020 में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ



ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग-2020

एक साल में 14 पायदान की छलांग

77वीं रैंकिंग

वर्ष 2019

63वीं रैंकिंग

वर्ष 2020

* 2014-19 के दौरान भारत की रैंकिंग में 79 पायदानों का सुधार



वर्ष 2020 की मनमोहक तस्वीरें



परफॉर्म इंडिया

